

**\*@shahjahanpurpol\***

**\*प्रेस नोट-जनपद शाहजहांपुर दिनांक 20.09.2022\***

**\*S.O.G. व थाना कोतवाली को मिल बडी कामयाबी,\***

**\*मोबाइल की दुकानों से ठगी करके बिना रूपये दिये महंगे मोबाइल फोन ठग ले जाने वाले गिरोह का खुलासा,**

**01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, करीब 02 लाख रूपये के ठगी किये गये 05 मोबाइल बरामद ।\***

श्री एस. आनन्द, पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जनपद मे अपराध की रोकथाम व अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं श्री अखण्ड प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण मे S.O.G. व थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

दिनांक 19.09.2022 की रात्रि को श्री शैलेन्द्र कुमार. निरीक्षक थाना कोतवाली व रोहित कुमार, प्रभारी S.O.G. के नेतृत्व मे थाना S.O.G. व थाना कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर समय 19.58 बजे बरेली मोड़ पुल से पहले लखनऊ की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे से अभियुक्त जावेद पुत्र स्व0 नूर हसन निवासी ग्राम उदयपुर थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर को 05 अदद मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया जो उसने फर्जी तरीके से दुकानदारो से धोखाधडी करके खरीदे थे । जिस सम्बन्ध मे थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**\*गिरफ्तारी/ बरामदगी का दिनांक , समय व घटनास्थल -\***

दिनांक 19.09.2022 समय 19.58 बजे , बरेली मोड़ पुल से पहले लखनऊ की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे ।

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण -\***

1. जावेद पुत्र स्व0 नूर हसन निवासी ग्राम उदयपुर थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर ।

**\*बरामदगी का विवरण -\***

**अभियुक्त के कब्जे से 05 अदद मोबाइल फोन ( अनुमानित कीमत करीब 02 लाख रूपये)**

1. वीवो कम्पनी वी-23, टच स्क्रीन गोल्डन कलर जिसका आई0एम0ई0आई0 न0- 861362051801712, 861362051801704
2. वीवो कम्पनी वी-23, टच स्क्रीन गोल्डन कलर जिसका आई0एम0ई0आई0 न0- 86136205112012, 861362051512004
3. ओपो कम्पनी ए-54, टच स्क्रीन ब्लू कलर जिसका आई0एम0ई0आई0 न0- 863508057864470, 863508057864462
4. वीवो कम्पनी वी-25 प्रो, टच स्क्रीन ब्लैक कलर जिसका आई0एम0ई0आई0 न0- 868519068109453, 868519068109446
5. वीवो कम्पनी टी-1, टच स्क्रीन स्काई ब्लू कलर जिसका आई0एम0ई0आई0 न0- 862297052887576, 862297052887568

## **\*पंजीकृत अभियोग -\***

1. मु0अ0सं0 484/2022 धारा 420/406/467/468/471/411 भा0द0वि0, 71/72ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम व 41/102 सीआरपीसी थाना कोतवाली

## **\*पूछताछ का विवरण-\***

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब मैंने अपने साथी शाबुद्दीन गाजी के साथ मिलकर एक गिरोह बना रखा है। हम लोग अलग-अलग जगहों पर मोबाइल की दुकानों पर जाते हैं तथा मैं दुकान पर जाकर एक अच्छी कम्पनी का महंगा एंड्रायड फोन खरीदने के लिए देखता हूँ फोन पसन्द आने पर मोल भाव करके उसका बिल अपने नाम से बनवा लेता हूँ। उसके बाद मैं दुकानदार से मोबाइल फोन का पेमेन्ट करने के लिए उसका बैंक एकाउन्ट नम्बर और एकाउन्ट पर रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर लेकर अपने दोस्त शाबुद्दीन, जो आस-पास ही थोड़ी दूरी पर रहता है को व्हाट्सअप करता हूँ। फिर शाबुद्दीन फर्जी तरीके से कूट रचना करके जिस बैंक में दुकानदार का खाता होता है उसी बैंक का व मोबाइल फोन की कीमत के बराबर रूपयों का NEFT ट्रान्सफर का फर्जी टेक्सट मैसेज दुकानदार के मोबाइल नम्बर पर भेजता है व इस मैसेज का एक स्क्रीन शाट मेरे मोबाइल फोन पर भी व्हाट्सअप कर देता है जिसे मैं दुकानदार को दिखाता हूँ और वह भी अपने फोन में आये मैसेज को देखकर यह विश्वास कर लेता है कि मोबाइल फोन के पैसे एकाउन्ट में आ गये हैं और इस तरह से धोखाधड़ी करके बिना रूपये दिये हम लोग धोखे से मोबाइल फोन दुकान से ले जाते हैं। दुकानदार को बाद में अपना एकाउन्ट चेक करने पर अपने साथ हुए फर्जीवाड़े का पता चलता है। चूँकि फोन का बिल मेरे नाम से बना होता है तो उस फोन को बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है।

## **\*विवरण गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-\***

1. निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर
2. श्री रोहित कुमार, प्रभारी रोहित कुमार जनपद शाहजहाँपुर
3. हे0का0 159 बलविन्दर सिंह थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर
4. हे0का0 157 उदयवीर सिंह एस.ओ.जी. जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 1730 शनि कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 2451 संजय भाटी थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर
7. का0 1435 दिलीप एस.ओ.जी. जनपद शाहजहाँपुर
8. का0 264 ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह एस.ओ.जी. जनपद शाहजहाँपुर
9. का0 1805 प्रभात चौधरी एस.ओ.जी. जनपद शाहजहाँपुर
10. आरक्षी 1449 राजुल साइबर सेल जनपद शाहजहाँपुर
11. का0 2477 विक्रान्त साइबर सेल जनपद शाहजहाँपुर